



**FCI | SIDBI | ESIC | BANK**



**REASONING**

**MOST IMPORTANT**

**QUESTIONS**

**#13**

**Full & Final**

**REVISION**

**LIVE | 09:00 AM**

**BY KULDEEP MAHENDRAS**





# UPCOMING ONLINE BATCHES

## January 2023

04 JAN 2023

01:00 PM to 03:00 PM

**BANK ONLINE LIVE CLASS**

08:00 AM to 10:00 AM

**SSC ONLINE LIVE CLASS**

**BILINGUAL**

11 JAN 2023

10:30 AM to 12:30 PM

**BANK ONLINE LIVE CLASS**

05:30 PM to 07:30 PM

**SSC ONLINE LIVE CLASS**

**BILINGUAL**

18 JAN 2023

07:30 PM to 09:30 PM

**BANK ONLINE LIVE CLASS**

01:00 PM to 03:00 PM

**SSC ONLINE LIVE CLASS**

**BILINGUAL**

25 JAN 2023

03:00 PM to 05:00 PM

**BANK ONLINE LIVE CLASS**

07:30 PM to 09:30 PM

**SSC ONLINE LIVE CLASS**

**BILINGUAL**

04 JAN 2023

02:00 PM to 04:00 PM

**BANK ONLINE LIVE CLASS**

**BENGALI**

18 JAN 2023

04:00 PM to 06:00 PM

**BANK ONLINE LIVE CLASS**

**BENGALI**



[www.mahendras.org](http://www.mahendras.org) •  7052477777/7052577777



Riya Mandaokar 8 hours ago

Thank you sir for the amazing session 😊

Ans is

16 members D\_G\_A\_M\_\_PQS\_TK

👍 👎 Reply ▶



Mohit 8 hours ago 1 subscribers

Thank-you Sir for this very Amazing and Helpful Class Session..🙏😊

And

My Answer for today's Homework is-

Total person == 16...

Read more

👍 👎 Reply ▶



Muskan Rai 8 hours ago 1 subscribers

ANSWER= DIGIAIM||PQSITK

THANK U SIR FOR AMAZING SESSION

👍 👎 Reply ▶



Vandana Chhatri 8 hours ago

Thank you sir for the amazing session 🙏

Hw. Ans. = D\_G\_A\_M\_\_PQS\_TK

👍 👎 Reply ▶



ROHIT PARKHE 7 hours ago

D\*G\*A\*M\*\*PQS\*TK. total 16. Thank you sir 🙏🙏

👍 👎 Reply ▶



harsh sharma 7 hours ago

Thank you sir wonderful sessions

D\_G\_A\_M\_\_PQS\_TK

16 person

👍 👎 Reply ▶



Tanisha p 8 hours ago 1 subscribers

Thank u sir 🙏

D\*G\*A\*M\*\*PQS\*TK

16 Person

👍 👎 Reply ▶



sk sundari kumari 8 hours ago 1 subscribers

Good morning sir ji

👍 👎 Reply ▶



Zikra Yasmeen 4 minutes ago

Total person=16

D\_G\_A\_M\_\_PQS\_TK

👍 👎 Reply ▶



Neelam Kushwaha 8 hours ago 4 subscribers

Answer- 16 persons

👍 👎 Reply ▶



sk sundari kumari 8 hours ago 1 subscribers

Nhi

👍 👎 Reply ▶



Aakanksha 5 hours ago

Thank u so muchh sr for this very amazing and wonderful session.... 🔥🔥 My answer for today homework is....

Total person =16 ....

D\_G\_A\_M\_PQS\_TK



monika kumari 8 hours ago

16person

D@G@A@M@@@PQS@TK

Thank you sir 🙏

Very nice session 🙌🙌🔥🔥📖😊



urmila kumari 4 hours ago

Today's h.w ans- 16 persons

D\*G\*A\*M\*\*\*PQS\*TK.

Thank you sir 🙏.



harsh sharma 7 hours ago

Thank you sir wonderful sessions

D\_G\_A\_M\_PQS\_TK

16 person



Surbhi Sinha 8 hours ago 4 subscribers

Home work question answer 🙏 D\*G\*A\*M\*\*\*PQS\*TK TOTAL 16 PERSON thank you sir 🙌🙌



Abhick 9 hours ago 74 subscribers

H/w- 16 person



Share &  
like!



**A certain number of persons are sitting in a row facing to the north. M sits 4th to the right of G. There is one person sits between D and G. Three persons sit between M and P. The number of persons sit between D and M is same as the number of persons sit to the right of P. Only one person sits between A and G. Q sits 3rd to the left of T and sits to the right of A. Six persons sit between A and Q. Both T and K are immediate neighbours of each other. S sits 3rd to the left of K. The number of persons sit to the right of K is same as the number of persons sit to the left of D.**

एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। M, G के दायें से चौथे स्थान पर बैठा है। D और G के बीच एक व्यक्ति बैठा है। M और P के बीच तीन व्यक्ति बैठे हैं। D और M के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है जितनी कि P के दाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या। केवल A और G के बीच एक व्यक्ति बैठता है। Q, T के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठता है और A के दाईं ओर बैठता है। A और Q के बीच छह व्यक्ति बैठते हैं। T और K दोनों एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। S, K के बायें से तीसरे स्थान पर बैठा है। K के दायीं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है जितनी कि D के बायें बैठे व्यक्तियों की संख्या।



A certain number of persons are sitting in a row facing to the north. M sits 4th to the right of G. There is one person sits between D and G. Three persons sit between M and P. The number of persons sit between D and M is same as the number of persons sit to the right of P. Only one person sits between A and G. Q sits 3rd to the left of T and sits to the right of A. Six persons sit between A and Q. Both T and K are immediate neighbours of each other. S sits 3rd to the left of K. The number of persons sit to the right of K is same as the number of persons sit to the left of D.

16





ZYZAYFBBFUUYBFFY~~U~~CBBBFNNNYACAUUAABYYYYCAUOYC

**Q. How many Y's are there in the above arrangement which is immediately followed by a Consonant?**

उपरोक्त व्यवस्था में कितने Y हैं जो एक व्यंजन के तुरंत बाद में हैं?


(1) Three

(2) Two

(3) Nine

(4) Six

(5) Seven







Direction: Study the following arrangement carefully & answer the following questions:

5 9 4 3 2 6 8 1 5 4 2 7 5 6 6 8 3 4

Which digit will be the 7<sup>th</sup> at right from the 10<sup>th</sup> from left in this series?

इस श्रंखला में बायें से 10वें से दायें ओर 7वां अंक कौन सा होगा?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4







If only one English word is possible from the 3<sup>rd</sup>, 5<sup>th</sup>, & 8<sup>th</sup> letter of the word **APARTMENT**. Which one from the following will be the 1<sup>st</sup> letter of that word? If such a word is not possible, then answer 'X' & if more than one such words are possible, then answer 'M'.

यदि **APARTTMENT** शब्द के तीसरे, पांचवें और आठवें अक्षर से केवल एक अंग्रेजी शब्द संभव है। निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का पहला अक्षर होगा? यदि ऐसा शब्द संभव नहीं है, तो 'X' का उत्तर दें और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द संभव हैं, तो 'M' का उत्तर दें।

- (A) A
- (B) T
- (C) X
- (D) M**





Q. The following questions are based on five words give below:

**ACTMHS**

**INETKA**

**MBUTAN**


**JZTHEE**

**PWQOOF**

If in the given words, +2 is done in each consonant in the English alphabetical series and -2 is done in each vowel, how many words will start or end with vowel?

यदि दिए गए शब्दों में अंग्रेजी वर्णानुक्रमिक श्रृंखला में प्रत्येक व्यंजन में +2 किया जाये और प्रत्येक स्वर में -2 किया जाये है, तो इस तरह से कितने शब्द स्वर से शुरू या समाप्त होंगे?

- (1) More than three
- (2) Three
- (3) Two ✓
- (4) One
- (5) None






Q. The following questions are based on five words give below:

**ACTMHS**                      **INETKA**                      **MBUTAN**                      **JZTHEE**                      **PWQOOF**

How many letters are there between fourth letter of second word from the left and sixth letter of third word from the right in alphabetical series?

वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार, बायें से दूसरे शब्द के चौथे अक्षर और दायें से तीसरे शब्द के छठवें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर हैं

- (1) Seven
- (2) Five**
- (3) Six
- (4) Three
- (5) Nine





Statements :  $A > F \leq C = D < E$

Conclusions: **I.  $A > E$**   $\times$

**II.  $F < E$**



- (1) If only conclusion I is true.
- (2) If only conclusion II is true.
- (3) If either conclusion I or II is true.
- (4) If neither conclusion I nor II is true.
- (5) If both conclusion I and II are true.



Statements :  $A > C = M \geq R < H$

Conclusions: I.  $A > R$

II.  $C \geq H$  ✗



- (1) If only conclusion I is true.
- (2) If only conclusion II is true.
- (3) If either conclusion I or II is true.
- (4) If neither conclusion I nor II is true.
- (5) If both conclusion I and II are true.



Statement :  $B < C = D \leq X \leq Y < Z$

Conclusions: I.  $B < X$

II.  $Z \leq C$  ✗

- (1) If only conclusion I is true.
- (2) If only conclusion II is true.
- (3) If either conclusion I or II is true.
- (4) If neither conclusion I nor II is true.
- (5) If both conclusion I and II are true.





Statement:  $M \geq O \geq L \geq T = E \geq D$

Conclusions: I.  $T < O$

II.  $T = O$

$T \leq O$

either or

~~$T \geq O$~~



- (1) If only conclusion I is true.
- (2) If only conclusion II is true.
- (3) If either conclusion I or II is true.
- (4) If neither conclusion I nor II is true.
- (5) If both conclusion I and II are true.



Statement:  $S \leq P \leq A = R > E \leq D$

Conclusions: I.  $A > D$  ✗  
II.  $S \leq E$  ✗

- (1) If only conclusion I is true.
- (2) If only conclusion II is true.
- (3) If either conclusion I or II is true.
- (4) If neither conclusion I nor II is true.
- (5) If both conclusion I and II are true.







**Q. In a Certain code MIND is written as 1913197 ,than find the code for JOY ?**

**Q. एक निश्चित कोड में MIND का कोड 1913197 लिखा गया है तो JOY का कोड क्या होगा ?**

*Prime* → Next Prime

M I N D

13 9 14 4

17 11 17 5

19 13 19 7

J O Y

20 15 25

11 17 29

13 19 31

- 1. 111729
- 2. 131931 ✓
- ~~3. 121719~~
- 4. 191820
- 5. None of these





**Q. In a Certain code FLOWER is written as 9115 ,than find the code for COMPUTER ?**

**Q. एक निश्चित कोड में FLOWER का कोड 9115 लिखा गया है तो COMPUTER का कोड क्या होगा ?**

- 1. 9115
- 2. 91111
- 3. 91155
- 4. ~~991155~~
- 5. None of these





Q. In a Certain code FATHER is written as LBVPJA ,than find the code for BABY ?

Q. एक निश्चित कोड में FATHER का कोड LBVPJA लिखा गया है तो BABY का कोड क्या होगा ?

- 1. DBBE
- 2. DBDF
- 3. DBDT
- 4. DBBF
- 5. None of these

F	A	T	H	E	R		2	1	2	25
6	1	20	8	5	18		B	A	B	Y
+6	+1	+2	+8	+5	+9		+2	+1	+2	+7
L	B	V	P	J	A		D	B	D	F
12	2	22	16	10	27		<hr/>			



9 9 9 7521 15 21 915

Thinking , without , solution is coded as 45 , 18 , 60

Something , between , creation is coded as 30 , 29, 15

Agree , thing , diverted , problem is coded as 20 , 19 , 9 , 11

Holding , to , handle , success is coded as 24 , 15 , 6 , 26

15 21 1

What is code of "Portugal" ?

Vowel का Add



A. 36

B. 22

37

C. 16

D. 37

E. NOT



**Statements:**

**Only tables are chairs.**

**Some tables are desks.**

**Conclusions:**

**I. All chairs are desks.**

**II. Some desks are  
tables.**

**कथन:**

**केवल मेज कुर्सियाँ हैं।**

**कुछ टेबल डेस्क हैं।**

**निष्कर्ष:**

**सभी कुर्सियाँ डेस्क हैं।**

**कुछ डेस्क टेबल हैं।**






**Statements:**

**Only tables are chairs.**

**Some tables are desks.**



**Conclusions:**

**I. All chairs are desks.**



**II. Some desks are tables.**





**Statements :**

**Only a few teachers are doctors.**

**0% teachers are lawyers.**

**Conclusions :**

**I. All lawyers are teachers.**

**II. Some doctors are not lawyers.**

**कथन:**

**केवल कुछ शिक्षक डॉक्टर हैं।**

**0% शिक्षक वकील हैं।**

**निष्कर्ष:**

**सभी वकील शिक्षक हैं।**

**कुछ डॉक्टर वकील नहीं हैं।**



Some	All	No	Some not	Only	Only a few
Frequently	100%	0%	Not more than	None but	All but some
Generally	Each	None			Only few
Occasionally	Every				Only a few not
Sometimes	Complete				
Mostly/almost/ap proximately	Full				
At least	Every single				
A few / few / fewer					
Maximum					
Minimum					
1-99%					
Fraction					





Statements :


Only a few teachers are doctors.

0% teachers are lawyers.

Conclusions :

I. All lawyers are teachers. ~~X~~

II. Some doctors are not lawyers. ✓





**Statements :**

**All circles are squares.**

**Some squares are rectangles.**

**Conclusions :**

**I. All rectangles being squares is a possibility.**

**II. All circles are rectangles.**

**कथन:**

**सभी वृत्त वर्ग हैं।**

**कुछ वर्ग आयत हैं।**



**निष्कर्ष:**

**सभी आयतों के वर्ग होने की संभावना है।**

**सभी वृत्त आयत हैं।**



Statements :


**All circles are squares.**

**Some squares are rectangles.**

Conclusions :

**I. All rectangles being squares is a possibility.**

**II. All circles are rectangles.**





## Statements:

**Only Rama is a clerk.**

**100% honest are Rama.**

## Conclusions:

**I. All Rama are honest.**

**II. All clerks being honest is a possibility.**

## कथन:

**केवल राम एक क्लर्क है।**

**राम १००% ईमानदार हैं।**

## निष्कर्ष:

**सभी राम ईमानदार हैं।**

**सभी क्लर्क के ईमानदार होने की संभावना है।**





Statements:


**Only Rama is a clerk.**

**100% honest are Rama.**

Conclusions:

**I. All Rama are honest.**

**II. All clerks being honest is a possibility.**






A family consists of eight members J , K , L , M , E , F , G and H . K is the parents of E who is the only sister of J . H is father in law of K . M is the only daughter of H . G is the son of F who is son in law of H . L is father of J .

एक परिवार में आठ सदस्य होते हैं J, K, L, M, E, F, G और H। K, E का माता-पिता है जो J की एकमात्र बहन है। H, K का ससुर है। M, H की एकमात्र बेटी है। G, F का पुत्र है, जो H का दामाद है। L, J का पिता है।

How many female are there among the given members of the family ?

परिवार के दिए गए में कितनी महिला सदस्य हैं?

- (A) Two
- (B) Three
- (C) Four
- (D) More than Four
- (E) CND





**Q. In a class of 90 students, numbers of boys are twice the number of girls. Rani is 58th from the left end and there are 20 boys to the right of Rani, then find the number of girls to the left of Rani? (if Rani is girl)**

90 छात्रों की एक कक्षा में, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या का दो गुना है। रानी बाएं छोर से 58 वें स्थान पर हैं और रानी के दाहिने ओर 20 लड़के हैं, तो रानी के बाईं ओर लड़कियों की संख्या क्या होगी? (अगर रानी लड़की है)

- (1) 15
- (2) 16
- (3) 17**
- (4) 19
- (5) None of these





Certain people are sitting in a row facing north. There are as many people to the right of Z as there are to the left of Z. Y is third to the left of U who sits fourth from one of the extreme ends of the row. T sits at one of the extreme ends of the row. There are five persons sitting between T and W. X sits exactly in the middle of T and W. Two person sits between W and Z. Y does not sit at the extreme ends of the row. There are as many persons sitting between Y and V as many are sitting between W and Y.




कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख बैठे हैं | Z के दाएं और जितने व्यक्ति हैं उतने ही Z के बाईं ओर हैं | Y ,U के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है जो की पंक्ति के किसी एक छोर से चौथे स्थान पर बैठा है | T एक छोर पर बैठा है | W और T के बीच पांच व्यक्ति बैठे हैं | X, W और T के ठीक बीच में बैठा है | W और Z के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं | Y पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है | Y और V के बीच उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने W और Y के बीच बैठे हैं |





Certain people are sitting in a row facing north. There are as many people to the right of Z as there are to the left of Z. Y is third to the left of U who sits fourth from one of the extreme ends of the row. T sits at one of the extreme ends of the row. There are five persons sitting between T and W. X sits exactly in the middle of T and W. Two person sits between W and Z. Y does not sit at the extreme ends of the row. There are as many persons sitting between Y and V as many are sitting between W and Y.






**P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in a circular table facing inside. Three persons are sitting between P and Q. Q sits second to the right of R. V is the immediate left of P. Two person sit between R and S. U is second to the right of V. W is not an immediate neighbour of V.**

P, Q, R, S, T, U, V, W एक गोलाकार टेबल के अंदर बैठे हैं। 3 व्यक्ति P और Q के बीच बैठे हैं। Q, R के दाईं ओर दूसरा व्यक्ति है। V, P के एकदम बाएं है। R और S के बीच में दो व्यक्ति बैठते हैं। U, V के दाईं ओर से दूसरा है। W, V का तत्काल पड़ोसी नहीं है।

Who / Whom / whose / which - पड़ोसी / Immediate



**P, Q, R, S, T, U, V, W are sitting in a circular table facing inside. Three persons are sitting between P and Q. Q sits second to the right of R. V is the immediate left of P. Two person sit between R and S. U is second to the right of V. W is not an immediate neighbour of V.**





Eight friends – Alia, Bhanu, Charu, Deena, Eshan, Fatima, Gaurav and Hira purchased bungalows on same date of different years viz. 1988, 1993, 1995, 1996, 2000, 2001, 2006 and 2009 but not necessarily in same order. They all have purchased their bungalows on 1st of June of their respective years.

(Note- For calculation of time period, please consider 1<sup>st</sup> June 2018 as cut-off date.)

Bhanu purchased his bungalow immediately before Deena.

Only one person purchased his bungalow between Deena and Eshan, who purchased in a leap year.

Two people purchased bungalow between Fatima and Gaurav who purchased it 12 years ago.

Alia was neither the first nor the last person to buy a bungalow.

Eshan does not bought the bunglow before 1996.

आठ दोस्त - आलिया, भानु, चारू, दीना, ईशान, फातिमा, गौरव और हीरा ने अलग-अलग वर्षों की एक ही तारीख को बंगले खरीदे। 1988, 1993, 1995, 1996, 2000, 2001, 2006 और 2009 लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। इन सभी ने अपने-अपने साल के 1 जून को अपने बंगले खरीदे हैं। (नोट- समयावधि की गणना के लिए कृपया 1 जून 2018 को कट-ऑफ तिथि मानें।)

भानु ने अपना बंगला दीना से ठीक पहले खरीदा। दीना और ईशान के बीच केवल एक व्यक्ति ने अपना बंगला खरीदा, जिसने एक लीप वर्ष में खरीदा। बंगला फातिमा और गौरव के बीच दो लोगों ने खरीदा, जिन्होंने इसे 12 साल पहले खरीदा था। आलिया बंगला खरीदने वाली न तो पहली और न ही आखिरी शख्स थीं। ईशान ने 1996 से पहले बंगला नहीं खरीदा है।



Eight friends – Alia, Bhanu, Charu, Deena, Eshan, Fatima, Gaurav and Hira purchased bungalows on same date of different years viz. 1988, 1993, 1995, 1996, 2000, 2001, 2006 and 2009 but not necessarily in same order. They all have purchased their bungalows on 1st of June of their respective years.

(Note- For calculation of time period, please consider 1<sup>st</sup> June 2018 as cut-off date.)

Bhanu purchased his bungalow immediately before Deena.

Only one person purchased his bungalow between Deena and Eshan, who purchased in a leap year.

Two people purchased bungalow between Fatima and Gaurav who purchased it 12 years ago.

Alia was neither the first nor the last person to buy a bungalow.

Eshan does not bought the bungalow before 1996.

1988	30	C/H	
1993	25	B	
1995	23	D	
1996	22	F	
2000	18	E	
2001	17	A	
2006	12	G	
2009	9	C/H	

B  
D





**In a General Store, 8 boxes - A, B, C, D, E, F, G and H are placed one above another but not necessarily in that order. Each box has a number written on it from 1 to 8 but not necessarily in the same order. Number 1 is at the top, number 8 is at the bottom and others accordingly.**

**Box E is placed below box H. Box A is on number 7. Box F is not on number 5. Box B is on number 4. Either box D or Box C is on number 1. Box G is not on number 3 and 5. Box F is not on number 2 and 3. Box D is on number 8.**

एक स्टोर में, 8 डिब्बे- A, B, C, D, E, F, G और H एक के ऊपर एक रखे गये हैं; लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक बॉक्स पर 1 से 8 तक एक संख्या लिखी गयी है। नंबर 1 शीर्ष पर है, संख्या 8 सबसे नीचे है और इसी प्रकार अन्य डिब्बे भी रखे गए हैं। बॉक्स E को बॉक्स H के नीचे रखा गया है। बॉक्स A नंबर 7 पर है। बॉक्स F नंबर 5 पर नहीं है। बॉक्स B नंबर 4 पर है। बॉक्स D या बॉक्स C नंबर 1 पर है। बॉक्स G नंबर 3 और 5 पर नहीं है। बॉक्स F नंबर 2 और 3 पर नहीं है। बॉक्स D नंबर 8 पर है।



In a General Store, 8 boxes - A, B, C, D, E, F, G and H are placed one above another but not necessarily in that order. Each box has a number written on it from 1 to 8 but not necessarily in the same order. Number 1 is at the top, number 8 is at the bottom and others accordingly.

Box E is placed below box H. Box A is on number 7. Box F is not on number 5. Box B is on number 4. Either box D or Box C is on number 1. Box G is not on number 3 and 5. Box F is not on number 2 and 3. Box D is on number 8.

Handwritten notes in Hindi and English:

शेडिंग (Shading) → सफला (Safala)

Rea 9:00 AM

ESIC - 6400



There are 10 members in the family who are sitting at some distance from each other in a park. N is 4 m in the west of M, who is 5 m in the north of O. Q is 12 m in the west of R. T is 3 m in the west of S, which is 12 m in the south of R. O is 6 m in the east of V, which is 2 m in the north of P, which is 8 m in the west of U. T is 1 m in the south of U.

परिवार में 10 सदस्य हैं जो एक पार्क में एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे हैं। N, M के पश्चिम में 4 मीटर है, जो O के उत्तर में 5 मीटर है। Q, R के पश्चिम में 12 मीटर है। T, S के पश्चिम में 3 मीटर है, जो R के दक्षिण में 12 मीटर है। O, V के पूर्व में 6 मीटर है, जो P के उत्तर में 2 मीटर है, जो U के पश्चिम में 8 मीटर है। T, U के दक्षिण में 1 मीटर है।



In which direction is U with respect to M? /M के सन्दर्भ में U किस दिशा में है?

1. North
2. East
3. South-East
4. North-West
5. None of these





There are 10 members in the family who are sitting at some distance from each other in a park. N is 4 m in the west of M, who is 5 m in the north of O. Q is 12 m in the west of R. T is 3 m in the west of S, which is 12 m in the south of R. O is 6 m in the east of V, which is 2 m in the north of P, which is 8 m in the west of U. T is 1 m in the south of U.



Twelve persons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L lives in different flats of different floors. There are four floors in a building as ground floor is numbered as 1 and above it is 2 and so on upto top floor numbered as 4. Each of the floor consist of 3 flats as flat-1, flat-2 and flat-3. Flat-1 of floor-2 is immediately above flat-1 of floor-1 and immediately below flat-1 of floor-3 and so on. In the same way flat-2 of floor-2 is immediately above flat-2 of floor-1 and immediately below flat-2 of floor-3 and so on. Flat-2 is in east of flat-1 and flat-3 is in east of flat-2.

Two persons live between J and K. J lives above K but both are living in the same flat number. A is to the east of I but none of them lives on same flat and same floor number on which J and K live. No one lives in the west of J. Only one person lives between C and G who lives below C. L lives to the east of G. F lives immediately above B and in the same flat number. D is to the west of H. L lives below E and H does not live on the top floor. E does not live in flat-2. C and G lives in the same flat number.

बारह व्यक्ति अर्थात् : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L अलग अलग तलों के अलग अलग फ्लैट पर रहते हैं। एक इमारत में चार तल हैं, सबसे निचले तल की संख्या 1, उससे ऊपर की 2 और आगे इसी तरह से शीर्ष तल की संख्या 4 है। प्रत्येक तल पर 3 फ्लैट हैं अर्थात् : फ्लैट-1, फ्लैट-2 और फ्लैट-3। तल-2 का फ्लैट-1, तल-1 के फ्लैट-2 के ठीक ऊपर है और तल-3 के फ्लैट-1 के ठीक नीचे है और आगे इसी तरह से। समान तरीके से तल-2 का फ्लैट-2, तल-1 के फ्लैट-2 के ठीक ऊपर है और तल-3 के फ्लैट-2 के ठीक नीचे है और आगे इसी तरह से। फ्लैट-2, फ्लैट-1 के पूर्व में है और फ्लैट-3, फ्लैट-2 के पूर्व में है। J और K के बीच में दो व्यक्ति रहते हैं। J, K के ऊपर रहता है लेकिन दोनों समान फ्लैट संख्या में रहते हैं। A, I के पूर्व में है लेकिन उनमें से कोई भी उसके समान फ्लैट और समान तल संख्या पर नहीं रहता है जिस पर J और K रहते हैं। कोई भी J के पश्चिम में नहीं रहता है। C और G, जो C के नीचे रहता है, के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। L, G के पूर्व में रहता है। F, B के ठीक ऊपर रहता है और समान फ्लैट संख्या में रहता है। D, H के पश्चिम में है। L, E के नीचे रहता है और H शीर्ष तल पर नहीं रहता है। E, फ्लैट-2 में नहीं रहता है। C और G समान फ्लैट संख्या में रहते हैं।



Twelve persons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L lives in different flats of different floors. There are four floors in a building as ground floor is numbered as 1 and above it is 2 and so on upto top floor numbered as 4. Each of the floor consist of 3 flats as flat-1, flat-2 and flat-3. Flat-1 of floor-2 is immediately above flat-1 of floor-1 and immediately below flat-1 of floor-3 and so on. In the same way flat-2 of floor-2 is immediately above flat-2 of floor-1 and immediately below flat-2 of floor-3 and so on. Flat-2 is in east of flat-1 and flat-3 is in east of flat-2.

**Two persons live between J and K. J lives above K but both are living in the same flat number. A is to the east of I but none of them lives on same flat and same floor number on which J and K live. No one lives in the west of J. Only one person lives between C and G who lives below C. L lives to the east of G. F lives immediately above B and in the same flat number. D is to the west of H. L lives below E and H does not live on the top floor. E does not live in flat-2. C and G lives in the same flat number.**